



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3992]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2018/आश्विन 16, 1940

No. 3992]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2018/ASVINA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5177(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु “केरल सरकार द्वारा गठित आयोग केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग, तिरुअवतन्पुरम”, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में एतद्वारा अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

- (क) केरल राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण;
- (ख) विद्युत अधिनियम 2003 के तहत लाइसेंस फीस;
- (ग) विद्युत अधिनियम 2003 के तहत याचिका फीस;
- (घ) निवेश से अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्वधीन प्रभावी होगी कि “केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग,—

- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 63/2018, फा. सं. 300196/36/2018-आईटीए-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन:**—यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2018

**S.O. 5177(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Kerala State Electricity Regulatory Commission', Thiruvananthapuram, a commission established by the Government of Kerala, in respect of the following specified income arising to that commission, namely:—

- (a) Grants and loans received from State Government of Kerala;
  - (b) License fee under Electricity Act, 2003;
  - (c) Petition fees under Electricity Act, 2003;
  - (d) Interest earned from investment.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Kerala State Electricity Regulatory Commission –
- (a) shall not engage in any commercial activity;
  - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
  - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2018-19 and shall apply with respect to the assessment years 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23.

[Notification No. 63/2018, F. No. 300196/36/2018-ITA-I]

VINAY SHEEL GAUTAM, Under Secy.

**Explanatory Memorandum:**—It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.